



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1938 (श0)

(सं0 पटना 46) पटना, शुक्रवार, 13 जनवरी 2017

सं0 4/कृ०शि०को०-25/2014-88/कृ०

कृषि विभाग

संकल्प

11 जनवरी 2017

विषय:-राज्य सरकार के अधीन कृषि विश्वविद्यालय में कृषि एवं उद्यान स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उपलब्ध सीटों में से 50 प्रतिशत सीट पर आई0एस0सी0एजी0 उत्तीर्ण छात्रों को नामांकन का अवसर प्रदान करने तथा आई0एस0सी0एजी0 को इंटरमिडिएट साईंस के समतुल्य दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति।

कृषि रोडमैप के अधीन राज्य में आई0एस0सी0 के स्तर पर कृषि शिक्षा की शुरुआत की गयी है। शिक्षा विभाग के द्वारा 11 राजकीय उच्च विद्यालय में आई0एस0सी0 (कृषि) की शिक्षा प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गयी है। इन विद्यालयों में वर्ष 2015 में पहली बार छात्रों का नामांकन हुआ है। आई0एस0सी0एजी0 उत्तीर्ण छात्रों को उच्चतर शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए स्नातक स्तर पर नामांकन की व्यवस्था विहित करने की आवश्यकता है।

2. बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन Agriculture/Horticulture में स्वीकृत छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है,

महाविद्यालय	स्वीकृत छात्रों की संख्या
बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर	60
मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, अगवानपुर, सहरसा	30
भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णियां	50
वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमराँव, बक्सर	50
डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज	60
नालंदा उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय, नालंदा	25
कुल	275

3. उक्त महाविद्यालयों में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा वर्षद के द्वारा आयोजित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नामांकन किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के तहत गणित अथवा जीव विज्ञान के साथ

इन्टरमिडिएट उत्तीर्ण छात्रों का नामांकन होता है। आई0एस0सी0एजी0 के छात्रों को अवसर उपलब्ध होने पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम में गणित/जीव विज्ञान के साथ ही कृषि विषय को भी शामिल किया जायेगा। आई0एस0सी0एजी0 उत्तीर्ण छात्र गणित/जीव विज्ञान से उत्तीर्ण छात्रों की तरह ही 3 वैकल्पिक विषयों, जिसमें से एक कृषि विषय होगा, की परीक्षा देंगे। इसी क्रम में आई0एस0सी0एजी0 उत्तीर्ण छात्रों के लिए 50 प्रतिशत अवसर कर्णांकित करने पर विचार किया जा सकता है। यह व्यवस्था पहली बार लागू किया जायेगा, अतः नामांकन के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है। कृषि विश्वविद्यालय के अधीन उक्त पाठ्यक्रमों में नामांकन के अवसर के अतिरिक्त सामान्य विश्वविद्यालयों में भी उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य के सामान्य विश्वविद्यालयों के द्वारा आई0एस0सी0एजी0 को इन्टरमिडिएट साईंस के समतुल्य दर्जा दिया जा सकता है।

4. उक्त क्रम में राज्य सरकार के अधीन कृषि विश्वविद्यालय में कृषि एवं उद्यान स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उपलब्ध सीटों में से 50 प्रतिशत सीट पर आई0एस0सी0एजी0 उत्तीर्ण छात्रों को नामांकन का अवसर प्रदान करने तथा आई0एस0सी0एजी0 को इन्टरमिडिएट साईंस के समतुल्य दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उक्त प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक : 10.01.2017 को प्राप्त है, जो संचिका संख्या—4/कृ०शि०को०-25/2014 के पृष्ठ सं०- 51/टि० पर संधारित है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 46-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>